

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

\* \* \*

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 395

(दिनांक 03.02.2021 को उत्तर के लिए)

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण**

**395. डॉ. डी. रविकुमार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) एवं अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के उम्मीदवारों द्वारा अब तक भरे गए आरक्षित पदों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) केन्द्र सरकार की नौकरियों में एस.सी. एवं एस.टी. के बैकलॉग रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सीधी भर्ती और पदोन्नति में केन्द्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) द्वारा भरे गए आरक्षित पदों के ब्यौरे संलग्नक-I में दिए गए हैं।

(ख) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केन्द्र सरकार के उन दस मंत्रालयों/विभागों, के संबंध में अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लिए बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने की प्रक्रिया की निगरानी करता है जहां 90% से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की बैकलॉग रिक्तियों के ब्यौरे संलग्नक-II में दिए गए हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में श्री रवि कुमार डी द्वारा दिनांक 03.02.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 395 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

निम्न तारीख तक की स्थिति के अनुसार	सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्ति		पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्ति	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
01.01.2017 (76 मंत्रालय/विभाग)	13,174	6,022	18,382	8,086
01.01.2018 (69 मंत्रालय/विभाग)	7,140	3,906	21,224	9,015
01.01.2019 (53 मंत्रालय/विभाग)	8,034	4,274	23,853	11,059
01.01.2020 (40 मंत्रालय/विभाग)	1,347	730	3,673	1,234

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में श्री रवि कुमार डी द्वारा दिनांक 03.02.2021 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

निम्न तारीख तक की स्थिति के अनुसार	अनुसूचित जातियां (अ.जा.)			अनुसूचित जनजातियां (अ.ज.जा.)		
	रिक्तियां	भरी गई	भरी नहीं गई	रिक्तियां	भरी गई	भरी नहीं गई
01.01.2017 (10 मंत्रालय/विभाग)	29,198	20,975	8,223	22,829	15,874	6,955
01.01.2018 (9 मंत्रालय/विभाग)	22,203	10,728	11,475	18,274	7,713	10,561
01.01.2019 (7 मंत्रालय/विभाग)	24,885	14,092	10,793	20,211	9,593	10,618
01.01.2020 (6 मंत्रालय/विभाग)	21,847	11,848	9,999	17,439	8,336	9,103

\*\*\*\*\*